

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 1968/चैत्र 13, 1890

No. 111]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 1968/CHAITRA 13, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Chemicals)

ORDER

New Delhi, the 2nd April 1968

S.O. 1290.—In exercise of the powers conferred by section 18-G of the Industries (Development and Resolution) Act, 1951 (63 of 1951), the Central Government hereby makes the following order to amend the Ethyl Alcohol (Price Control) Order, 1966, namely:—

1. This Order may be called the Ethyl Alcohol (Price Control) Amendment Order, 1968.
2. In clause 2 of the Ethyl Alcohol (Price Control) Order, 1966, in column 2, of the Table for the words, figures and brackets, "Two hundred and thirty-one (231)" and "Two hundred and eleven (211)", the words, figures and brackets "Two hundred and fifty-seven (257)" and "Two hundred and thirty-seven (237)" shall respectively be substituted.

[No. 4(19)/67/ch. I.]

M. RAMAKRISHNAYYA, Jt. Secy.

(467)

